

LTF/ SE/2019-20

Date: 13/02/2020

To,

**The Bombay Stock Exchange (BSE Limited)
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001**

**National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai – 400 051**

Dear Sir/ Madam

Ref. Code: 532783, Scrip ID: DAAWAT

Sub: Newspaper publication for declaration of Interim dividend and Intimation of record date

Pursuant to the provisions of Regulation 30 and other applicable provisions, if any of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section-91 of the Companies Act, 2013, please find attached newspaper publication of Interim dividend and intimation of record date in Financial express and Jansatta.

You are requested to take the same on your record.

Thanking you.

Yours truly

For LT FOODS LIMITED

Monika Chawla
Monika Chawla Jaggia

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. F5150

Address: 4th Floor, MVL-I Park, Sector-15, Gurugram-122001


**BNP PARIBAS
MUTUAL FUND**

Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)
Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: BNP Paribas House, 1 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex,
Bandra - East, Mumbai - 400 051. Website: www.bnpparibasmf.in • Toll Free: 1800 102 2595

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 07/2020

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) cum Application Forms for the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund (‘the Fund’):

Introduction of mySWP facility under certain Schemes of BNP Paribas Mutual Fund:

BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) has decided to introduce my Systematic Withdrawal Plan (‘mySWP’) facility under the eligible Schemes of the Fund. This facility of mySWP shall enable an investor to withdraw a regular sum (i.e. redeem) from the investments made in the eligible Schemes of BNP Paribas Mutual Fund, at fixed percentage of original investments at a monthly frequency. This facility of mySWP shall be available to investors w.e.f. **March 02, 2020**.

The terms and conditions for availing the ‘mySWP’ shall be as follows:

- Eligible Schemes:** This facility shall be available under all open ended Equity & Hybrid Funds of BNP Paribas Mutual Fund (except BNP Paribas Long Term Equity Fund, BNP Paribas Dynamic Equity Fund and BNP Paribas Conservative Hybrid Fund). Accordingly, this facility is being offered under BNP Paribas Large Cap Fund, BNP Paribas Mid Cap Fund, BNP Paribas Multi Cap Fund, BNP Paribas India Consumption Fund, BNP Paribas Focused 25 Equity Fund, BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund and BNP Paribas Arbitrage Fund.
- Frequency for mySWP:** mySWP shall be triggered on a Monthly frequency.
- Withdrawal Dates:** mySWP may be opted for any of the following dates viz., 1st or 7th or 15th or 25th of the month. If the withdrawal date under this facility falls on a non-business day, the next business day will be considered for this purpose.
- Minimum Amount:** This facility is applicable for lump sum investments only having original cost of investment as minimum ₹ 1 lac. The monthly payout amount will be calculated on each designated lump sum investment, basis cost of investment.
- Withdrawal Options:** This facility currently offers the following two options:
 - mySWP @ 8.00% p.a.** (of designated lump sum investment, basis cost of investment)
 - mySWP @ 10.00% p.a.** (of designated lump sum investment, basis cost of investment)

For both the options, the monthly payout amount calculated shall be rounded off to next higher integer.

Illustration: For calculation of mySWP @ 8.00% p.a. and 10% p.a. with monthly frequency

Particulars	mySWP at 8.00% p.a.	mySWP at 10.00% p.a.
Investment Date (Lump sum investment date)	1-Feb-2020	1-Feb-2020
Cost of Lump Sum Investment	₹ 10,00,000	₹ 10,00,000
Amount to be Redeemed each month under mySWP	₹ 6,667* (rounded off to the next higher integer)	₹ 8,334** (rounded off to the next higher integer)
NAV (as on 1-Feb-2020)	₹ 10.50	₹ 10.50
Units Allotted (A)	95,238.095	95,238.095
First mySWP Date	1-Mar-2020	1-Mar-2020
Amount to be Redeemed (B)	₹ 6,667	₹ 8,334
NAV (as on 1-Mar-2020*) (C)	₹ 11.00	₹ 11.00
Units to be Redeemed (D=B/C)	606.091	757.636
Balance Units (A-D)	94,632.004	94,480.459

*₹ (10,00,000*8% p.a.)/12 months = ₹ 6,667 per month.

**₹ (10,00,000*10% p.a.)/12 months = ₹ 8,334 per month

*there is no assurance of performance for any of the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund.

In case the unitholder fails to indicate an option or in case of ambiguity, this facility will be processed as per the following default options for the unitholder:

Default Withdrawal Option	8% p.a.
Default date	7 th of each month.

- A request for mySWP will be treated as a redemption from the Scheme, at the applicable NAV, subject to applicable load and statutory levies, if any.
- The monthly payout under this facility will continue to be processed on the original cost of investment even in case of any partial redemptions or further lump sum investments by the unitholder.
- The mySWP enrolment form, complete in all respects, must reach at least 7 days in advance of withdrawal date at any of the Official Points of Acceptance of Transactions of the Fund.
- This facility may terminate on receipt of a notice from the unitholder. Thus, unitholder could choose to terminate the mySWP at any time by giving a written notice of at least 7 days in advance of withdrawal date to the Official Points of Acceptance of Transactions of the Fund.
- If the net asset value of the units outstanding on the withdrawal date is insufficient to process the monthly payout amount under this facility, then the AMC/the Fund will redeem all units outstanding and the mySWP request will stand withdrawn for further processing. Further, the facility will automatically stand terminated if all units are liquidated or withdrawn or pledged or upon receipt of notification of death of the first named unitholder.
- This facility can be availed by unitholder irrespective of the movement in market value of the investments, but the same would be subject to the availability of original account balance of the unitholder.
- The AMC reserves the right to change/modify the terms of the mySWP from time to time or withdraw this facility.
- Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SID & KIM cum Application Forms of the Fund read with the addenda issued thereunder. All other features and terms and conditions as mentioned in the SID & KIM remain unchanged.

For BNP Paribas Asset Management India Private Limited

(Investment Manager to BNP Paribas Mutual Fund)

Sd/-

Jyothi Krishnan

Head of Compliance, Legal & Secretarial

Date : February 12, 2020

Place : Mumbai

**MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS,
READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**


Divi's Laboratories Limited

CIN: L24110TG1990PLC011854
Regd. Office: 1-72/23(P)DIVIS/303, Divi Towers, Cyber Hills,
Gachibowli, Hyderabad - 500 032. Ph: 040-23786300
E-mail: mail@divislabs.com URL: www.divislabs.com

Notice of Record Date for Interim Dividend

Notice is hereby given that, pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules made thereunder and Regulations 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and any other applicable provisions, the Company has fixed Wednesday, 26 February, 2020 as the Record Date for the purpose of determining the members eligible to receive interim dividend of Rs. 16/- (Rupees Sixteen only) per equity share of Rs. 2/- each for the financial year 2019-20 as declared by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 12 February, 2020. The payment of the interim dividend would be made on or before 05 March, 2020.

Further details and updates in respect of the above can be viewed on the website of the Company (www.divislabs.com) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Divi's Laboratories Limited

M. Satish Choudhury

Place : Hyderabad

Date : 12 February, 2020

Company Secretary & Compliance Officer


ZENOTECH LABORATORIES LTD

CIN: L27100AP1989PLC010122

Registered Office: Survey No. 250-252, Turkapally Village,
Shameerpet Mandal, Hyderabad - 500 078, Telangana State
Phone No. +91-90320 44584/585/586 Website: www.zenotechlab.com
Email: info@zenotech.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, that approval of the members of Zenotech Laboratories Limited (‘the Company’) is being sought through a Postal Ballot (which includes voting by electronic means) for the following business to be passed by way of Special Resolution:

“VARIATION IN TERMS OF ‘OBJECTS OF THE BUSINESS’ MENTIONED IN THE COMPANY'S LETTER OF OFFER DATED JUNE 21, 2017”

All the members are hereby informed that:

- Date of completion of dispatch of Postal Ballot along with Statement setting out material facts (both physically and electronically): **February 12, 2020**.
- Day, Date and Time of commencement of voting: **Friday February 14, 2020 at 9:00 AM (IST)**.
- Day, Date and Time of end of voting: **Saturday, March 14, 2020 at 5:00 PM (IST)** - The e-voting platform would be disabled by KFin Technologies Private Limited (KTPL) thereafter. Any Postal Ballot form received beyond the said date and time will not be valid and voting whether by postal ballot or by electronic means shall not be allowed beyond the said date.
- The cut-off date for determining right of voting of members : Friday, **February 7, 2020**. Any person who is not a member as on the aforementioned cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice dated February 1, 2020, for information purposes only.
- Members may opt for only one mode of voting i.e. either by physical Postal Ballot or e-voting. In case a member has voted through e-voting as well as Postal Ballot Form, the vote cast through e-voting would be considered and the vote cast physical Postal Ballot shall be treated as invalid.
- Members who have not received the Postal Ballot Form may apply to the Company or its Registrar and Transfer Agent and obtain a duplicate thereof.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mahadev Tirunagari, Company Secretary in Practice as scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner.
- The Postal Ballot Notice and Form have been hosted on the website of the Company : www.zenotechlab.com and on the website of KTPL at <https://evoting.karvy.com>.
- Upon completion of the scrutiny of the postal ballot received in electronic and physical mode, the Scrutinizer will submit his report to the Chairperson or person authorised by the Chairperson. The results of the Postal ballot along with Scrutinizer's Report will be announced on or before Tuesday, March 17, 2020 through the website of the Company viz., www.zenotechlab.com and will also be communicated to the stock exchange.
- In case of any grievance or query connected with voting by Postal Ballot including voting by electronic means, members may contact the below mentioned officer of the Company/its Registrar and Transfer Agent:
For any query or grievances in relation to e-voting, please contact Mr. Rajeev Kumar, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot No.31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Tel No.040-67161524, Email: rajeev.kr@kintech.com.

On behalf of the Board of Directors
For Zenotech Laboratories Limited

Sd/-

Abdul Gafoor Mohammad
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad

Date: February 12, 2020

CIN NO L74899DL1990PLC041790


LT Foods Ltd.

Regd. Office: Unit No 134, 1st Floor, Rectangle-1,
Saket District Centre, New Delhi- 110017

Corp. Off.: 4th Floor, MVL-I Park, Sector-15, Gurugram-122001,
Website: www.ltgroup.in, Tele: 0124-3055100, Email: ir@ltgroup.in

NOTICE FOR RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND

Notice is hereby given that in terms of provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Board of Directors of the Company in their meeting held on 12th February 2020 has declared Interim Dividend of Re. 0.50 per share, i.e. 50% on equity shares of Re. 1/- each, fully paid-up for the financial year 2019-20. The Company has further fixed Monday, 24th February, 2020 as record date to determine eligible shareholders entitled to receive the Interim Dividend. The Interim dividend shall be paid/ dispatched within the period as stipulated in the Companies Act, 2013.

By Order of the Board
For LT Foods Limited
Monika Chawla Jaggia
Company Secretary
Membership No. F5150

Place: Gurugram
Date: 13th February, 2020

FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

[Under regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

RELEVANT PARTICULARS	
1 Name of the corporate debtor	Gangakhed Sugar & Energy Limited
2 Date of incorporation of corporate debtor	28th September, 2007
3 Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered	Registrar of Companies - Mumbai
4 Corporate identity number/ limited liability identification number of corporate debtor	U15421MH2007PLC174599
5 Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	B-43/169, Shalom, Sunder Nagar, Sunder Nagar Lane, Kalina, Santacruz (East) Mumbai Mumbai City MH 400098 IN
6 Insolvency commencement date of the corporate debtor	12th October, 2019
7 Date of invitation of expression of interest	6th February, 2020*
8 Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria is set out in the detailed invitation of expression of interest, available at gangakhed-cirp@ezylaws.com
9 Norms of (in)eligibility applicable under section 29A are available at:	The norms are set out in the detailed invitation of expression of interest, available at gangakhed-cirp@ezylaws.com
10 Last date for receipt of expression of interest	25th February, 2020
11 Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	27th February, 2020
12 Last date for submission of objections to provisional list	3rd March, 2020
13 Date of issue of final list of prospective resolution applicants	4th March, 2020
14 Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	4th March, 2020
15 Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Will be provided by Resolution Professional to prospective resolution applicants who are determined to be eligible as per the process laid down in detailed invitation for expression of interest.
16 Last date for submission of resolution plans	3rd April, 2020
17 Manner of submission of resolution plans to resolution professional	Submitted in single sealed envelope, with cross signature on the seal by the representative of the prospective resolution applicant addressed to: Mr. Ankur Kumar, Resolution Professional for Gangakhed Sugar & Energy Limited, 18, 10th Floor, Pinnacle Corporate Park, Bandra Kurla Complex, Bandra (e), Mumbai- 400051
18 Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	8th April, 2020
19 Name and registration number of the resolution professional	Mr. Ankur Kumar IBI Registration No: IBBI/AN-KUMAR/2012/IP-N00113/2017-18/10283
20 Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Mr. Ankur Kumar, Resolution Professional for Gangakhed Sugar & Energy Limited, 18, 10th Floor, Pinnacle Corporate Park, Bandra Kurla Complex, Bandra (e), Mumbai- 400051 Email: gangakhed-cirp@ezylaws.com , ankur.srivastava@ezylaws.com Email : ankur.srivastava@ezylaws.com
21 Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Mr. Ankur Kumar, Resolution Professional for Gangakhed Sugar & Energy Limited, 18, 10th Floor, Pinnacle Corporate Park, Bandra Kurla Complex, Bandra (e), Mumbai- 400051 Email: gangakhed-cirp@ezylaws.com , ankur.srivastava@ezylaws.com
22 Further Details are available at or with	Mr. Ankur Kumar Email : gangakhed-cirp@ezylaws.com
23 Date of publication of Form G	6th February, 2020

*Note: I, EOI was earlier invited in this matter on 10.01.2020, last date of submission of EOI was granted on 27.01.2020. However, the COC in its meeting, unanimously resolved to invite a fresh EOI and therefore this invitation is being made.

Mr. Ankur Kumar
IBBI Registration No: IBBI/AN-KUMAR/2012/IP-N00113/2017-18/10283
Resolution Professional for Gangakhed Sugar & Energy Limited
18, 10th Floor Pinnacle Corporate Park
Bandra Kurla Complex, Bandra (e), Mumbai- 400051


INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Regd. Office : Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019

CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no. : 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website : www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2019

Particulars	Results on Standalone Basis						Results on Consolidated Basis					
	3 months ended 31/12/2019	Preceding 3 months ended 30/09/2019	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2018	9 months ended 31/12/2019	9 months ended 31/12/2018	Previous year ended 31/03/2019	3 months ended 31/12/2019	Preceding 3 months ended 30/09/2019	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2018	9 months ended 31/12/2019	9 months ended 31/12/2018	Previous year ended 31/03/2019
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total Income from operations (net)	3,204.97	3,166.11	2,810.62	9,498.80	8,056.05	10,982.56	3,350.55	3,295.39	2,900.40	9,843.31	8,471.31	11,509.32
2. Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,142.55	1,107.47	1,078.81	3,388.65	3,152.20	4,320.30	(381.62)	(854.73)	(588.43)	(2,707.00)	(1,043.92)	999.02
3. Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,112.44	358.21	1,078.81	2,527.67	2,992.54	3,986.22	(381.62)	(839.28)	3,642.88	(2,722.06)	3,533.02	7,164.82
4. Net Profit for the period after tax	880.44	92.56	743.05	1,640.44	2,153.91	2,817.03	(621.17)	(1,118.13)	3,300.22	(3,648.45)	2,669.41	5,922.02
5. Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	881.79	83.67	726.56	1,631.19	2,135.57	2,794.75	(613.58)	(1,104.40)	3,268.92	(3,639.05)	2,658.92	5,891.36
6. Equity Share Capital	1,225.16	1,223.16	1,221.16	1,225.16	1,221.16	1,221.16	1,225.16	1,223.16	1,221.16	1,225.16	1,221.16	1,221.16
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year						22,018.98						24,205.82
Earning per share (of ₹ 10 each) (not annualised)												
(a) Basic	7.21	0.76	6.10	13.45	17.70	23.12	(4.90)	(8.95)	27.25	(29.24)	22.66	49.53
(b) Diluted	7.16	0.75	6.06	13.35	17.58	22.93	(4.87)	(8.89)	27.06	(29.04)	22.50	49.14

Note :

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Place : Noida
Date : February 12, 2020

Hitesh Oberoi
Managing Director

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ संभव नहीं : अरोड़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 फरवरी।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ की गुंजाइश से इनकार करते हुए कहा है कि मतदान के लिए मतपत्र की ओर लौटने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अरोड़ा ने बुधवार को एक सम्मेलन में कहा कि जिस प्रकार से किसी कार या पेन का दुरुपयोग किया जा सकता है उसी तरह ईवीएम का भी दुरुपयोग किया जाना तो संभव है लेकिन इसमें छेड़छाड़ कर कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है।

अरोड़ा ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल पिछले 20 सालों से किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य अदालतों ईवीएम को मतदान के लिए सही ठहरा चुकी है। ऐसे में ईवीएम के बजाय मतपत्र की ओर लौटने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव सुधारों, खासकर चुनाव आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न

राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

सम्मेलन में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में अरोड़ा ने कहा कि इस बार में राजनीतिक दलों की सहमति से सरकार को फैसला करना है। फैसले को आयोग लागू कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग किसी स्थान के मतदाता को किसी अन्य स्थान से मतदान करने की सुविधा को भी मुहैया कराए जाने की परियोजना पर काम कर रहा है। अरोड़ा ने उदाहरण देकर बताया कि इस व्यवस्था के तहत अगर राजस्थान का कोई मतदाता चेन्नई में कार्यरत है तो वह राजस्थान में चुनाव होने पर चेन्नई से ही मतदान कर सकेगा। इस परियोजना पर आयोग के विशेषज्ञ आइआइटी मद्रास के साथ मिल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं होगा कि लोग घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे, बल्कि दूरस्थ मतदान के लिए मतदाता को मतदान केंद्र पर जाना होगा।



मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा

CIN No L74899DL1990PLC041790

DAAWAT

LT Foods Ltd.

Regd. Office:-Unit No 134,1st Floor, Rectangle-1, Saket District Centre, New Delhi- 110017

Corp. Off.: 4th Floor, MVL-I Park, Sector-15, Gurugram-122001

Website: www.ltgroup.in, Tele: 0124-3055100, Email: ir@ltgroup.in

अंतरिम लाभांश की रिपोर्ट तिथि की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल ने 12 फरवरी 2020 की अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए पूरी तरह पेड़-अप 1/- रु. प्रति इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 0.50 रु. अर्थात् 50% अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। साथ ही, कम्पनी ने अंतरिम लाभांश के हकदार योग्य शेयरधारकों के निर्धारण के लिए सोमवार 24 फरवरी 2020 को रिपोर्ट तिथि सुनिश्चित की है। अंतरिम लाभांश कम्पनी अधिनियम 2013 में निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान कर दिया / भेज दिया जाएगा।

कृते एलटी फूड्स लिमिटेड

हस्ता.

मोनिता चावला जागिया

कम्पनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 13 फरवरी 2020

सदस्यता सं F5150

सांबा में हत्या के प्रयास में बीडीसी प्रमुख गिरफ्तार

जम्मू, 12 फरवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में प्रखंड विकास परिषद (बीडीसी) के प्रमुख को पुरानी दुश्मनी के चलते दो भाइयों की कथित तौर पर हत्या करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि विजयपुर बीडीसी के प्रमुख योगेश्वर सिंह की गिरफ्तारी उनके और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ स्थानीय थाने में दर्ज मामले के संबंध में की गई है। सुबानी गांव के रहने वाले सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सांबा के प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने छह फरवरी को सिंह को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि मंगलवार को जमानत रद्द किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि 31 जनवरी को मोहित जामवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे और उसके भाई रोहित जामवाल को बीडीसी प्रमुख और उनके रिश्तेदारों ने पुरानी दुश्मनी के चलते जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि दोनों भाई घायल अवस्था में थाने पहुंचे थे। उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारने के अलावा उन पर लोहे की छड़ और बल्ले से हमला किया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि जिस वाहन से हमला किया गया था, उसमें बीडीसी के रिश्तेदार सवार थे। साथ ही कहा कि मामले के अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

मनसे कार्यकर्ताओं ने छेड़खानी करने वाले युवकों को पीटा

नासिक, 12 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के नासिक में एक स्कूल के बाहर लड़कियों को छेड़ने वाले कुछ युवकों की मनसे कार्यकर्ताओं ने पीटाई कर दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और स्थानीय पुलिस के सूत्रों के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर शहर के शालीमार इलाके में स्कूल के बाहर हुई। इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। सूत्रों ने बताया कि युवक स्कूल से बाहर आ रहे लड़कियों पर फब्तियां कस रहे थे।

CyberMedia

CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

CIN : L92114DL1982PLC014334

Registered Office : D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi - 110 017, Tel. 011-26491320

Corporate Office : Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram, Haryana - 122 001, Tel. 0124-4822222

Website : www.cybermedia.co.in, www.ciol.com

Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2019

Rs. in Lakhs

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months
		Dec-19 (Unaudited)	Sep-19 (Unaudited)	Dec-18 (Unaudited)	Dec-19 (Unaudited)
1	Total income from operations (net)	904.07	1,005.73	1,570.44	3,207.04
2	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	(46.92)	12.11	(119.44)	(47.80)
3	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	(46.92)	(1,907.82)	(119.44)	(1,967.73)
4	Net profit / (loss) for the period after tax	(46.92)	(1,907.82)	(162.79)	(1,970.28)
5	Total comprehensive income for the period	(46.92)	(1,907.82)	(162.79)	(1,970.28)
6	Paid-up equity share capital	1,286.72	1,286.72	1,286.72	1,286.72
7	Other Equity	-	-	-	(1,992.88)
8	Earnings per share (Face value per share Rs.10/-each)				
a)	Basic (Rs. per share)	(0.36)	(14.83)	(1.27)	(15.31)
b)	Diluted (Rs. per share)	(0.36)	(14.83)	(1.27)	(15.31)

Notes:

- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on February 7, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 12, 2020.
- Standalone Information:

Particulars	Quarter Ended			
	Dec-19 (Unaudited)	Sep-19 (Unaudited)	Dec-18 (Unaudited)	Dec-19 (Unaudited)
Total revenue	121.24	200.05	165.61	583.05
Profit before tax	(61.00)	(2,018.28)	(61.86)	(2086.91)
Profit after tax	(61.00)	(2,018.28)	(112.14)	(2086.91)
Other comprehensive income (OCI)	-	-	-	-
Total comprehensive income (Net of tax)	(61.00)	(2018.28)	(112.14)	(2086.91)

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results are available on stock exchanges' website and on Company's website.
- Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

Cyber Media (India) Limited

Sd/-

Pradeep Gupta
Chairman & Managing Director
DIN: 00007520

Place: Gurugram
Date: February 12, 2020

DATAQUEST **PCQUEST** **CMR** **CIOL** **VOICE&DATA** **limited digital**

GLOBAL SERVICES **THE DQWEEK** **DQChannels** **VOICE&DATA Connect** **DARE**

B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

(L74899DL1989PLC036148)

Regd. Off: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025

Ph: 91-11-40500300 ; Fax: 91-11-40500333

Website: www.blkashyap.com ; Email: info@blkashyap.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

(₹ In Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED					
		Quarter ended		Nine months ended		Quarter ended		Nine months ended		For the year ended	
		31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	
1	Total Income from operations	18,693.74	18,707.29	57,544.71	59,785.73	74,848.71	19,165.63	19,336.95	58,985.56	61,548.24	76,925.04
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	106.32	669.90	(1,111.83)	3,793.82	2,177.83	(167.13)	43.42	(1,958.91)	1,516.92	(602.47)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	106.32	669.90	(1,111.83)	3,793.82	2,177.83	(167.13)	43.42	(3,973.69)	1,166.92	(957.08)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(215.18)	449.19	(1,176.00)	2,625.25	1,391.72	(422.81)	53.41	(3,684.73)	849.76	(628.40)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(233.45)	449.19	(1,230.84)	2,667.37	1,318.60	(441.09)	53.41	(3,739.57)	891.88	(702.77)
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of the Share Rs 1/-)	2,254.40	2,154.40	2,254.40	2,154.40	2,254.40	2,254.40	2,154.40	2,254.40	2,154.40	2,254.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of previous year	-	-	-	-	53,272.00	-	-	-	-	49,328.20
8	Earning Per Share of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations)										
	Basic:	(0.10)	0.21	(0.52)	1.22	0.64	(0.19)	0.02	(1.63)	0.39	(0.29)
	Diluted:	(0.10)	0.20	(0.52)	1.16	0.62	(0.19)	0.02	(1.63)	0.38	(0.28)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.blkashyap.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th November, 2019.

For & on behalf of the Board of

B.L. Kashyap and Sons Limited

Sd/-

Vineet Kashyap
Managing Director

(DIN: 00038897)

Place: New Delhi

Dated: 12th February, 2020

WE BUILD YOUR WORLD

यूपी होटल्स लि.

CIN:L55101DL1961PLC017307

पंजी. कार्यालय: 1101, सूर्य किरण, 19, कन्दुबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

टेली: 011-23722596-98, फैक्स: 011-23312990,

ईमेल: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, वेब: www.hotelclarks.com

31 दिसम्बर, 2019 का समाप्त तिमाही एवं नव महीना के लिए स्टैंडएलोन अनकंसेलित वित्तीय परिणामों का विवरण का सार

(आव प्रातशर का छड़कर रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही के लिये		समाप्त 9 महीने के लिये		समाप्त वर्ष के लिये
		31.12.2019 अनकंसेलित	30.9.2019 अनकंसेलित	31.12.2019 अनकंसेलित	31.12.2018 अनकंसेलित	
1.	परिचालन से कुल आय	3379.39	1722.41	3244.23	6946.91	7038.07
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (कर, वित्तीय एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	805.04	(475.54)	592.33	109.08	133.14
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (वित्तीय एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	805.04	(475.54)	592.33	109.08	133.14
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (वित्तीय एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	606.78	(366.49)	436.87	81.08	73.50
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर के बाद) लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	629.40	(347.17)	403.35	153.24	154.73
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
7.	आवधिक (पुनर्मूल्योक्त अवधि के अतिरिक्त)	-	-	-	-	8717.00
8.	आव प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)					
1.	मूल	11.24	(6.79)	8.09	1.50	(1.36)
2.	तरल	11.24	(6.79)	8.09	1.50	(1.36)

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त परिणामों को ऑडिट कर्मिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये उसे सांख्यिक लेखा-परीक्षणों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन रखा गया है।
- उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2019 का समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही एवं नौ महीने वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।

यूपी. होटल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
अपूर्व कुमार रुपक गुप्ता
(संयुक्त प्रबंध निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12.02.2020

Genus
energizing lives

GENUS PRIME INFRA LIMITED

(Formerly Gulshan Chemfill Limited)

CIN:L24117UP2000PLC032010

Regd. Office: Near Moradabad Dharan Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, Uttar Pradesh

Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Ph.:0591-2511171 | Fax:0591-2511242 | E-mail: cs.genusprime@gmail.com | Website: www.genusprime.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019

(Rs. in Lakhs)

S. NO.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended Dec 31, 2019		Quarter Ended Dec 31, 2018	Quarter Ended Dec 31, 2019		Quarter Ended Dec 31, 2018
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income from operations	5.01	17.67	4.66	5.01	17.67	4.66
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(6.51)	(15.82)	(1.35)	(7.40)	(18.33)	(1.84)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(6.51)	(15.82)	(1.35)	(7.40)	(18.33)	(1.84)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(6.51)	(15.82)	(1.35)	(7.40)	(18.33)	(1.84)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(6.51)	(15.82)	(1.35)	(7.40)	(18.33)	(1.84)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.2/- each)	298.53	298.53	281.47	298.53	298.53	281.47
8	Earnings Per Share (of Face value of Re.2/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)						
	Basic:	(0.04)	(0.11)	(0.01)	(0.05)	(0.12)	(0.01)
	Diluted:	(0.04)	(0.11)	(0.01)	(0.05)	(0.12)	(0.01)

Notes:

- The above unaudited financial results (Standalone and Consolidated) of Genus Prime Infra Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on February 12, 2020. Limited Review of these results required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued in unqualified report thereon.
- The Above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year classification.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Amit Agarwal)
Whole Time Director & CEO
DIN: 00016133

Place : Moradabad
Date : February 12, 2020

संगल पेपर्स लिमिटेड

(CIN:L2101SUI980PLC005138)

पंजी. कार्यालय: ग्राम भैंसा, पी.ओ. सन्धन, 22 कि.मी.-मवाना रोड, मवाना, उ.प्र.-250401

फोन: 01233-271515, 271137, ईमेल: sangalinvestors@gmail.com,
वेबसाइट: www.sangalpapers.com

31.12.2019 का समाप्त तिमाही तथा वर्ष के स्टैंडएलोन अनकंसेलित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही के लिये		समाप्त 9 महीने के लिये		समाप्त वर्ष के लिये
		31.12.2019 अनकंसेलित	30.9.2019 अनकंसेलित	31.12.2019 अनकंसेलित	31.12.2018 अनकंसेलित	
1	परिचालन से राजस्व	3197.76	2943.53	3670.70	9861.54	11244.78
2	अन्य आय	15.81	9.21	27.18	29.81	123.34
3	कुल राजस्व (1+2)	3212.97	2952.74	3697.88	9846.35	11368.12
4	खर्च	-	-	-	-	-
क)	खपत सामग्री की लागत	2471.25	2611.72	3126.51	8295.39	9199.48
ख)	व्यापार में भंडार में क्रय	(0.00)	13.57	3.60	13.57	300.31
ग)	तैयार सामग्री की इन्वेंट्रीज, प्रगति में कार्यों, तथा व्यापार में भंडार में परिवर्तन	137.22	(70.50)	(33.54)	12.23	(225.07)
घ)	कर्मचारी लाभ व्यय	200.74	200.94	183.01	593.81	538.81
ङ)	वित्त लागत	52.72	51.19	48.79		